



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 551) पटना, बृहस्पतिवार, 7 मई 2015

सं0 3/स्था-11(मुक0)-84/12-414
जल संसाधन विभाग

संकल्प
17 मार्च 2015

विषय:—जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अवमाननावाद सं0-2900/2006, शिवपूजन दूबे एवं अन्य वनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सेवानिवृत्ति/सेवाकाल में मृत्यु के कारण नियमितिकरण से वंचित कार्यभारित कर्मियों को सेवांत लाभ के संदर्भ में सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से नियमितिकरण की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि अवमाननावाद सं0-2900/2006, शिवपूजन दूबे एवं अन्य वनाम राज्य सरकार एवं अन्य सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0-377/2000 शिवपूजन दूबे एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय दिनांक 20.10.2005 से उद्भूत में माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में नियमित हुए 65 कार्यभारित कर्मियों में से कतिपय कार्यभारित कर्मियों जो न्यायादेश की तिथि 20.10.05 एवं नियमितिकरण की तिथि 09.08.11 के बीच सेवा निवृत्त/मृत्यु होने के कारण नियमितिकरण का लाभ प्राप्त नहीं हो सका था, की सेवा को माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि को नियमितिकरण की तिथि मानने की प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

वित्त विभाग के स्वीकृति के प्रत्याशा में 65 कार्यभारित कर्मियों को न्यायादेश दिनांक 20.10.2005 के प्रभाव से नियमित किया गया। तदंतर वित्त विभाग के निदेश के आलोक में कार्यभारित कर्मियों के नियमित स्थापना में सम्पूरिवर्तन की तिथि 20.10.2005 को संशोधित कर कार्यालय आदेश के निर्गत की तिथि 09.08.11 के प्रभाव से किया गया। परन्तु उक्त अवधि के बीच 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर अथवा सेवाकाल में मृत्यु के कारण सेवा में नहीं रहनेवाले कार्यभारित कर्मियों सेवा नियमितिकरण के लाभ से वंचित रह गये। इस प्रकार के कार्यभारित कर्मियों उनके आश्रितों द्वारा निम्नांकित वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये गये:—

क्र0 सं0	वाद सं0	वादी का नाम
01	18228/2012	राधाकृष्ण प्रसाद (दि0 31.01.10 को से0 नि0)
02	18685/2012	कौशल कुमार (दि0 28.02.10 को से0 नि0)
03	18032/2012	जीतेन्द्र कुमार सिन्हा (दि0 30.06.09 को से0 नि0)
04	18688/2012	स्व0 जगदीश सिंह लाईन मैन से0 नि0 दि0 30.11.09 की पत्नी चमेली देवी

क्र० सं०	वाद सं०	वादी का नाम
05	18078/2013	स्व० सिद्धेश्वर ठाकुर हेल्पर सेवाकाल में मृत्यु दि० 09.01.11 की पत्नी आनंदी देवी
06	17415/2013	स्व० मो० लाल हेल्पर सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.10 एवं मृत्यु दि० 11.08.10 की पत्नी लैला खातून

उपरोक्त सभी वादों में यह न्यायादेश पारित हुआ कि वैसे कार्यभारित स्थापना के कर्मों जिन्हें नियमितिकरण से संबंधित आदेश दिनांक 09.08.2011 से प्रभावी होने के फलस्वरूप नियमितिकरण का लाभ नहीं मिल सका है, के संबंध में वित्त विभाग के उक्त परामर्श से मुख्य अभि० (यॉ०) पटना द्वारा निर्गत ज्ञापांक-398 दिनांक 07.02.2012 निष्प्रभावी होगा।

2. तद्आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अवमाननावाद सं०-2900/2006 में पारित न्यायादेश एवं पुनः प्राप्त वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में आलोच्य अवधि (20.10.05 से 09.08.11 तक) में अधोवर्णित कुल-06 कार्यभारित कर्मियों की सेवा के नियमितिकरण का लाभ सेवानिवृत्ति की तिथि से अथवा सेवाकाल में मृत्यु की तिथि से अपवाद स्वरूप प्रभावी किया जाय।

- (i) श्री राधाकृष्ण प्रसाद से० नि० की तिथि 31.01.10
- (i i) श्री कौशल कुमार से० नि० की तिथि 28.02.10
- (iii) श्री जीतेन्द्र कुमार सिन्हा से० नि० की तिथि 30.06.09
- (iv) स्व० जगदीश सिंह भूतपूर्व लाईन मैन से० नि० की तिथि 30.11.09
- (v) स्व० सिद्धेश्वर ठाकुर भूतपूर्व हेल्पर सेवाकाल में मृत्यु की तिथि 09.01.11
- (vi) स्व० मो० लाल भूतपूर्व हेल्पर से० नि० की तिथि 31.01.10

3. उपर्युक्त आदेश में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 551-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>